

प्रेस नोट दिनांक-07.06.2021

(1). यूपी 112 जनपद चित्रकूट

जनपद चित्रकूट पीआरवी 2048 थाना राजापुर अंतर्गत दिनांक 06/06/2021 को समय 13:20 बजे इवेंट संख्या 9003 द्वारा घटनास्थल कारखाना मोहल्ला वार्ड नं 4 थाना राजापुर से कॉलर गीता w/o हरि (मोबाइल नंबर 9984638269) द्वारा सूचना दी गयी कि उनके पति शराब पीकर गीता जी के साथ झगड़ा कर रहे है मारपीट कर रहा घर से बाहर निकल रहा है और खुद जान देने के लिए डाई पी लिया है अभी हालात ठीक है।

कृत कार्यवाही इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को जानकारी हुई कि पति पत्नी का विवाद है। पति ने अपनी पत्नी के साथ लडाई झगड़ा और मारपीट की है। और स्वयं डाई पी ली है। पीआरवी कर्मियों ने तत्काल कॉलर के पति हरि को पीआरवी वाहन द्वारा chc अस्पताल राजापुर में भर्ती कराया गया है साथ मे परिजन भी है।

पीआरवी स्टाफ

कमांडर - hc कल्लू राम

सब कमांडर - c राम करन

पायलट - hc राजेंद्र कुमार

(2). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 07.06.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट द्वारा परानु बाबा मन्दिर व बरगढ़ मोड पर, एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा बाजार, पटेल नगर, गांधीनगर आदि स्थानों पर, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर में बाजपेयी तिराहा व ग्राम रम्पुरिया में, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चुंगी चौराहा, धुस मैदान, एसडीएम कालोनी में, एण्टी रोमियो टीम मारकुण्डी द्वारा कस्बा मारकुण्डी में आर्यवर्त बैंक व ग्राम किहुनिया में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।